



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 चैत्र 1943 (श०)  
(सं० पटना 268) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अप्रील 2021

---

सं० 1लो0ले0स0-14/21-838/वि०स०  
बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक,

भूदेव राय,  
निदेशक,  
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,  
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-26 मार्च, 2021 ई० ।

विषय:-

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का “सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन” एवं “सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “राज्य का वित्त” का सदन पटल पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का “सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन” एवं “सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” “विनियोग लेखे” तथा “राज्य का वित्त”

दिनांक- 23.03.2021 को माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन पटल पर उपस्थापित किया गया तथा “प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो” के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,  
भूदेव राय,  
निदेशक।

### प्रस्ताव

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का “सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन” एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन” तथा बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)”, “विनियोग लेखे” तथा “राज्य का वित्त” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 268-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>